



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11]
No. 11]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 6, 1981/वैशाख 16, 1903
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 1981/VAISAKHA 16, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 6 मई, 1981

आ० अ० 12(अ) :—उत्तर प्रदेश में 56-अलाहाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री विश्व नाथ प्रसाद सिंह द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप उस स्थान रिक्त हो गया है ;

हमारे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उस निर्वाचन-क्षेत्र में यह अपेक्षा करता है कि ऐसे छुई रिक्त को भरने के लिए 18 जून, 1981 (बृहस्पतिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के अधीन तदधीन बनाए गए नियमों और प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दे।

[सं० 100/उ० प्र०-खो० सं० /6/80(1)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 6th May, 1981

O.N. 12(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by the reason of the resignation by Shri Vishwa Nath Pratan Singh, a member elected to that House from 56-Allahabad Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 18th June, 1981 (Thursday) in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/UP-HP/6/80(1)]

आ० अ० 13(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०-खो० सं० /6/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 56-अलाहाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में —

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम 13 मई, 1981 (बुधवार); तारीख
- (ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख 14 मई, 1981 (बृहस्पतिवार)
- (ग) अप्रार्थिताएं वापस लेने के लिए अंतिम 16 मई, 1981 (शनिवार); तारीख
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक 14 जून, 1981 (रविवार); हो, वा मतदान होगा
- (ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन 18 जून, 1981 (बृहस्पतिवार) समाप्त कर दिया जाएगा

नियत करना है।

[सं० 100/उ० प्र०-खो० सं० /6/80(2)]

O.N. 13(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 56-Allahabad Parliamentary constituency in the State of Uttar Pradesh in pursuance of its Notification No. 100/UP-HP/6/80(1), dated the 6th May, 1981.

- (a) 13th May, 1981 (Wednesday) as the last date for making nominations ;
- (b) 14th May, 1981 (Thursday) as the date for the scrutiny of nominations ;
- (c) 16th May, 1981 (Saturday) as the last date for the withdrawal of candidatures;
- (d) 14th June, 1981 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 18th June, 1981 (Thursday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/UP-HP/6/80(2)]

आ० ख० 14(अ) — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/उ० प्र०-ख० सं०/6/80(1), तारीख 6 मई, 1981 के अनुसरण में 56 इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 7.30 बजे पूर्वार्द्ध से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[100/उ० प्र०-ख० सं०/6/80(3)]

के० गणेशन,

सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

O.N. 14(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P.M. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 56-Allahabad Parliamentary constituency to be held in pursuance of its Notification No. 100/UP-HP/6/80(1), dated the 6th May, 1981.

[No. 100/UP-HP/6/80(3)]

K. GANESAN, Secy. to the Election Commission of India